

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग2, खंड3, उपखंड (i)मेंप्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 22/2020- केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2020

सा.का.नि.(अ)आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 46/2019-केंद्रीय कर, तारीख 09अक्टूबर, 2019, जो भारतकेराजपत्र, असाधारण, भाग2, खंड3, उपखंड (i)में सा.का.नि. सं. 769(अ), तारीख 09अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:--

क. उक्त अधिसूचना के, पहले पैरा में, पहलेपरंतुक के लिए निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिनका मूल कारबार स्थान भूतपूर्वजम्मू-कश्मीर राज्य में है, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग की दशा में, जिनका समग्र आवर्त पूर्ववर्ती वित्त वर्ष या चालू वित्त वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक है, अक्टूबर, 2019 मास के लिए, समय-सीमा 24मार्च, 2020 तक है।”।

ख. उक्त अधिसूचना के, पहले पैरा में, दूसरेपरंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु यह भी कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिनका मूल कारबार स्थान जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में या लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में है, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग की दशा में, जिनका समग्र आवर्त पूर्ववर्ती वित्त वर्ष या चालू वित्त वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक है, नवंबर, 2019 से फरवरी, 2020 तक प्रत्येक मास के लिए, समय-सीमा 24मार्च, 2020 तक है।”।

2. यह अधिसूचना 20 दिसंबर, 2019 से प्रभावी हुई समझी जाएगी।

[फा.सं. CBEC-20/06/04/2020-जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)

निदेशक, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 46/2019-केंद्रीय कर, तारीख 09अक्टूबर भारतकेराजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 769(अ), तारीख 09अक्टूबर द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चातवर्ती संशोधन अधिसूचना सं. 76/2019-केंद्रीय कर, तारीख 26दिसंबर, 2019, जो भारतकेराजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. 955(अ) 26दिसंबर, 2019 द्वारा संशोधित की गई थी।

